

MSIL: COS: NSE&BSE: 2023/06_09

29th June, 2023

To,

Vice President
National Stock Exchange of India Limited,
“Exchange Plaza”, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400 051

General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street Mumbai -400 001

Sub: Copy of notice published in newspaper

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith a copy of notice published in newspapers regarding intimation of transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Maruti Suzuki India Limited**

Sanjeev Grover
Executive Vice President
& Company Secretary

Encl: As Above

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Head Office:

Maruti Suzuki India Limited,
1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,
New Delhi - 110070, India.
Tel: 011- 46781000, Fax: 011-46150275/46150276
E-mail id: contact@maruti.co.in, www.marutisuzuki.com

Gurgaon Plant:

Maruti Suzuki India Limited,
Old Palam Gurgaon Road,
Gurgaon - 122015, Haryana, India.
Tel: 0124-2346721, Fax: 0124-2341304

Manesar Plant:

Maruti Suzuki India Limited,
Plot No.1, Phase - 3A, IMT Manesar,
Gurgaon - 122051, Haryana, India.
Tel: 0124-4884000, Fax: 0124-4884199

Notice for Loss of Share Certificate of Sundaram-Clayton Limited (FOR CLAIM FROM IEPF AUTHORITY)

Notice is hereby given that the following share certificate(s) of Sundaram-Clayton Limited has/have been lost or misplaced or stolen and the legal heir(s) of the registered holder is/are in the process of applying to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority for refund of the shares and dividends transferred to IEPF.

Table with 4 columns: Folio No., Name of Shareholder(s), No. of Shares, Share Certificate No(s), Distinctive Nos. From To

This notice is being issued as per Schedule III of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2017, as amended from time to time.

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim with evidence to the Company, at its Registered Office, M/s Sundaram-Clayton Limited, "Chalanya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai - 600 006 (email id: corpsec@sundaramclayton.com) or to its Share Transfer Agents, Integrated Registry Management Services Private Limited, "Kencos Towers", 2nd Floor, No.1 Ramakrishna Street, North Usman Road, T Nagar, Chennai - 600 017.(email id: srrams@integratedindia.in) within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the legal heir(s) of the registered holder will apply to IEPF for refund of shares and dividends. Any person dealing with the above said shares will be doing so at their own risk.

- 1) Kedamath Subbarao Legal heir of Late Mr. Madduri Venkata Subba Rao Address: Flat No.301, Prathinav Apartments, 5/5 Entrenchment Road, Marredpally West, Secunderabad 500026 Date: 28th June 2023

MARUTI SUZUKI MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375 Regd. Off.: Plot no. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070, India Ph.: +91 (11)46781000; Fax: +91 (11)46150275/76 Web: www.marutisuzuki.com; Email id: investor@maruti.co.in

NOTICE (For the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub: Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") and subsequent amendments thereto as notified by the Ministry of Corporate Affairs.

The Rules contain provisions for transfer of such shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, in the name of Demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF). The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website at www.marutisuzuki.com. Shareholders are requested to refer to the website https://www.marutisuzuki.com/corporate/investors/events to verify the details of unpaid/unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to IEPF.

Shareholders may note that both the unpaid/unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back under IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th September, 2023, the Company shall transfer the shares to the IEPF as per the procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at KFIN Technologies Limited: Mr. Vijay Ravun, Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500032; Toll Free No./ Phone No.: 18003094001; Email ID: einward.ris@kfinitech.com; Website: https://kfinitech.com/

For Maruti Suzuki India Limited Sanjeev Grover Executive Vice President and Company Secretary Place: New Delhi Date: June 28, 2023

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT UNDER REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THEREOF ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") AND CORRIGENDUM OF THE DETAILED PUBLIC STATEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF

DIGGI MULTITRADE LIMITED

CIN: L65900MH2010PLC210471 Registered Office: D-106, Crystal Plaza, Opposite Infiniti Mall, Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053; Contact No.:+91 22 2674 4365; Email Id:diggimultitrade@gmail.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 25,20,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH REPRESENTING 26.04% OF THE VOTING SHARE CAPITAL FROM PUBLIC SHAREHOLDERS OF DIGGI MULTITRADE LIMITED ("DML" OR "TARGET COMPANY"), BY MR. SAMARTH PRABHUDAS RAMANUJ ("ACQUIRER 1") AND MR. RAJA LACHHMANDAS UTWANI ("ACQUIRER 2") (ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") TOGETHER WITH MS. SHRUTI RAMANUJ ("PAC 1"), MR. LACHHMAN GHANSHAMDAS UTWANI ("PAC 2"), MS. MEENA LACHHMANDAS UTWANI ("PAC 3"), MS. VEENA LACHHMANDAS UTWANI ("PAC 4") AND HAXCO INVEST PRIVATE LIMITED ("PAC 5") (PAC 1, PAC 2, PAC 3, PAC 4 AND PAC 5 HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") AT A PRICE OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER EQUITY SHARE PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS 3(1) AND 4 OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011 ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum") is being issued by Expert Global Consultants Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirers and PACs, pursuant to and in compliance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 in respect of Open Offer.

This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum is to be read together with Public Announcement dated March 24, 2023 ("PA"), the Detailed Public Statement ("DPS") dated April 2, 2023 published on March 3, 2023 in Financial Express (English Daily - All Editions), Jansatta (Hindi Daily - All Editions) and Navshakti (Marathi Daily-Mumbai Edition) and Letter of Offer dated ("LOF") June 20, 2023.

- (1) The Offer Price is ₹ 19/- (Rupees Nineteen Only) per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in cash in accordance with the Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and LOF. There has been no revision in the Offer Price.
(2) Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommend that the Offer Price of ₹ 19/- is fair and reasonable. The recommendation of IDC was published on Tuesday, June 27, 2023 in the same newspapers where the DPS was published.
(3) This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. There has been no competitive bid to this Offer.
(4) The LOF has been dispatched on June 22, 2023 to all the Public Shareholders of the Target Company whose names appeared in the register of members on Thursday, June 15, 2023 ("Identified Date").
(5) Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" on page no. 25 of the LOF in relation to inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.
(6) Please note that a copy of the LOF will also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
(7) Instructions for Public Shareholders:
In case the Equity Shares are in dematerialized form: An eligible person may participate in the Offer by approaching their Selling Broker and tender Equity Shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in Point 8.5 mentioned on page no. 27 of the LOF.
In case the Equity Shares are in physical form: An eligible person may participate in the Offer by approaching their Selling Broker and tender Equity Shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in Point 8.6 mentioned on page no. 28 of the LOF.
(8) In terms of Regulation 16(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer ("DLOF") had been submitted to SEBI on April 12, 2023. The final observations letter bearing reference no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/24130/1 from SEBI was received on June 13, 2023 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and the observations have been duly incorporated in the LOF.
(9) Material Updates
Public Shareholders are requested to note the following material updates to the DLOF as included in the LOF in relation to the Open Offer:

- 9.1 Material updates regarding delay in compliance
Disclosures regarding delay in compliance under Regulation 29(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 have been included in paragraph 4.8.n on page no. 15 of the LOF.
9.2 Material updates regarding Target Company
Disclosure of Target Company's main objects as per its MoA and Revenue from Operations of the Target Company for the year ended March 31, 2022 and March 31, 2023 have been included in paragraph 5.5 and 5.6 on page no. 16 of the LOF.
9.3 Material updates regarding market price of the Equity Shares of the Target Company on Stock Exchange
Disclosure regarding the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on BSE as of the date of PA and immediate trading day after the date of PA have been included in paragraph 5.8 on page no. 17 of the LOF.
9.4 Material updates regarding shareholding of the Board of Directors of the Target Company
Disclosures of the shareholding of the Board of Directors of the Target Company have been included in paragraph 5.11 on page no. 17 of the LOF.
9.5 Material updates regarding summary of Financial Statements of the Target Company
Disclosure of Summary of Financial Statements for the six months period ended September 30, 2022 which have been replaced with financial year ended March 31, 2023 in paragraph 5.16 on page no. 18 of LOF.
9.6 Other Key updates and Changes in the LOF
(a) Disclosure of any relationship / association between the Acquirers / PACs with any public shareholder of the Target Company has been included in paragraph 4.8.m on page no. 15 of the LOF.
(b) Disclosure of date of payment by Target Company for punitive action taken by BSE Limited for Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for quarter March 2022 have been included in paragraph 5.13.a on page no. 17 of the LOF.
(c) Disclosure of any complaint received by the Target Company / Manager to the Offer with respect to this Open Offer or the valuation of Offer Price have been included in paragraph 5.20 on page no. 19 of the LOF.
(d) Disclosure of any regulatory action, administrative warnings, directions subsisting or proceedings pending against the Acquirers, PACs, Promoters of the Target Company, Target Company, Manager to the Offer and Registrar and Transfer Agent under SEBI Act, 1992 have been included in paragraph 5.21 on page no. 20 of the LOF.
(e) Disclosures of penalties levied by the SEBI, RBI against Target Company, Acquirers, PACs, Manager to the Offer and Registrar and Transfer Agent in paragraph 5.22 on page no. 20 of the LOF.
(f) Disclosure of depository receipts of the Equity Shares of the Target Company issued in foreign countries has been included in paragraph 5.23 on page no. 20 of the LOF.
(g) Disclosure of report filed under Regulation 10(7) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 have been included in paragraph 5.24 on page no. 20 of the LOF.
(h) Disclosure of the relationship / association between the Acquirers, PACs and Promoter Sellers / Target Company have been included in paragraph 5.25 on page no. 20 of the LOF.
(10) As on the date, there are no statutory approvals required to acquire the Equity Shares tendered pursuant to this Open Offer. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer.
(11) Schedule of Activities:

Table with 3 columns: Activity, Original Schedule, Revised Schedule

"Date falling on the 10th (Tenth) working day prior to commencement of the Tendering Period, for the purposes of determining the eligible shareholders of the Target Company to whom the Letter of Offer shall be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (even if they acquire Equity Shares and become shareholders of the Target Company after the Identified Date) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of the Tendering Period.

The terms not defined herein will have the same meaning as defined in the PA, DPS and LOF. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. The Acquirers along with the PACs and the directors of PAC 5 severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the obligations of the Acquirers and PACs as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in

THIS PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM IS ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS ALONGWITH THE PACS EXPERT GLOBAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 1511, RG Trade Tower Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034, India; Company Identification Number: U74110DL2010PTC205995 Tel No.: +91 11 4509 8234; Email Id: openoffers@expertglobal.in; Website: www.expertglobal.in; Investor Grievance: compliance@expertglobal.in; SEBI Registration Number: INM000012874; Validity: Permanent; Contact Person: Mr. Gaurav Jain

For and on behalf of Acquirers and PACs Sd/- Samarth Prabhudas Ramanuj Sd/- Lachhman Ghanshamdas Utwani For Haxco Invest Private Limited Sd/- Authorised Signatory Place : Ahmedabad Date : June 28, 2023 Sd/- Raja Lachhmandas Utwani Sd/- Shruti Ramanuj Sd/- Veena Lachhmandas Utwani

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance or advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED

Corporate Identity Number: U67120RJ1996PLC011509

Our Company was originally incorporated as 'Akme Fintrade (India) Private Limited' as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated February 5, 1996 issued by the Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur. Thereafter, our Company was converted to a public limited company, pursuant to a special resolution passed by our shareholders on January 5, 1997 and the name of our Company was changed to 'Akme Fintrade (India) Limited' and a fresh certificate of incorporation dated March 11, 1997 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur. For details in relation to change in the address of the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 238.

Registered Office: AKME Business Centre (ABC), 4-5 Subcity Centre, Savina Circle opp. Krishi Upaz Mandi Udaipur, Rajasthan - 313002, India | Tel: 0294-2489501-02 Website : www.aasaanloans.com | Email: cs@asaanloans.com Contact Person: Jayashree P Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: NIRMAL KUMAR JAIN, MANJU DEVI JAIN, DIPESH JAIN AND NIRMAL KUMAR JAIN HUF

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,10,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL. THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 5,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [●] % OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND NET ISSUE SHALL CONSTITUTE [●] % AND [●] %, RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF UDAIPUR, RAJASTHAN WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 (TWO) WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE, AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid / Issue Period will be extended by at least 3 (three) additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid / Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Issue Period for a minimum of 3 (three) Working Days, subject to the Bid / Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid / Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations"). This Issue is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders, out of which a) one third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 2,00,000/- and up to ₹ 1,00,000 and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1,00,000, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not more than 50% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Issue Price. All Bidders are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Banks under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. There shall be no allocation to QIBs in this Issue under the QIB category. For further details, see "Issue Procedure" on page 402 of the DRHP. This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with the SEBI.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, respectively and the website of the BRLM, i.e. Grex Corporate Services Limited at www.grexcorporate.com. Our Company hereby invites the public to provide comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made therein. The members of public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM and the Registrar to the Issue at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the BRLM and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 30 of the DRHP.

Any decision whether to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") shall be filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the RHP, are proposed to be listed on the BSE and NSE.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 238 of the DRHP.

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of the Company see "Capital Structure" beginning on page 76 of the DRHP.

Table with 2 columns: BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE (Grex Corporate Services Limited) and REGISTRAR TO THE ISSUE (Bigshare Services Private Limited)

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For and on behalf of AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED Sd/- Jayashree P Sharma Company Secretary and Compliance Officer Place: Udaipur Date: June 29, 2023 AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, respectively and the website of the BRLM, i.e. Grex Corporate Services Limited at www.grexcorporate.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" of the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States. AdBaz

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: L74899DL1970GO05276
बोनस बंधन कोर - 07AACH0632A12F
पंजीकृत कार्यालय: हदको गहन कोर - 7ए, इंडिया हाउसिंग सेक्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, दूरभाष: 011-24649610-21

हीरो फिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: U74899DL1991PLC46774
पंजी. कार्यालय : 34, कम्प्यूटि सेक्टर, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
फोन: 011-49487150 | ई-मेल: hfi@herofin.co.in

MARUTI SUZUKI
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
CIN: L34103DL1981PLC011375
पंजी. कार्या: प्लॉट नं.1, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, इंडिया
फोन: +91 (11) 46781000; फैक्स: +91 (11) 46150275/76

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)
रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन एच एल आर सी एल), जो मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना को लागू कर रहा है, निम्नलिखित पदों के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है।

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लि.
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067
दूरभाष: 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कच्चा सूचना
मूल्य, हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना (आ) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

Table with 5 columns: क्र. सं., कर्जदारों/बंधकर्ता का नाम, बकाया राशि, मांग सूचना की तिथि, कच्चा करने की तिथि, अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का विवरण. Contains 12 rows of financial data.

Table with 4 columns: क्र. सं., कर्जदारों/बंधकर्ता का नाम, बकाया राशि, मांग सूचना की तिथि, कच्चा करने की तिथि, अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का विवरण. Contains 24 rows of financial data.